



# जागरण

## कच्ची में केमिकल मिलाकर बनाई जा रही मिलावटी शराब

Publish Date:Wed, 15 Apr 2020 05:14 PM (IST)

जागरण संवाददाता हरिद्वार जिले में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत होने की घटना को अभी साल भर हुआ है। लेकिन धंधा खत्म होने के बजाए देहात से शहरी क्षेत्र तक आ पहुंचा है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: जिले में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत होने की घटना को अभी साल भर हुआ है, लेकिन धंधा खत्म होने के बजाय देहात से शहरी क्षेत्र तक आ पहुंचा है। हरिद्वार शहरी क्षेत्र में कच्ची शराब में केमिकल मिलाकर मिलावटी शराब बनाने का धंधा चल रहा है। लॉकडाउन में ठेके बंद होने पर शराब की डिमांड बढ़ने पर नकली शराब बनाकर बेचने वालों की चांदी कट रही है।

उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जनपद के झबरेड़ा व भगवानपुर क्षेत्र में बीते फरवरी 2019 में जहरीली शराब कांड सामने आया था। जहरीली शराब ने जनपद के एक दर्जन से ज्यादा गांवों के 50 से ज्यादा ग्रामीणों की जान ले ली थी। जहरीली शराब का धंधा बॉर्डर के दोनों तरफ होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस समय दोनों राज्यों की विधानसभाओं में यह मुद्दा गूंजा और शासन प्रशासन हिल गया। कच्ची शराब के धंधे पर लगाम लगाने के लंबे चौड़े दावे किए गए। इतनी बड़ी संख्या में हुई मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना तो दूर शासन प्रशासन जिले में कच्ची शराब का धंधा बंद नहीं करा पाया। वर्तमान में देहात के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी कच्ची व मिलावटी शराब का धंधा चालू है। सूत्र बताते हैं कि देहात से कच्ची शराब लाकर इसमें केमिकल मिलाते हुए नकली शराब तैयार कर बेची जा रही है। डेढ़ साल पहले रानीपुर क्षेत्र में नकली शराब का एक कारखाना पकड़ा जा चुका है, अब शहर के दूसरे इलाके में मिलावटी शराब का धंधा चल रहा है। लॉकडाउन में ठेके बंद होने के चलते मिलावटी शराब की खपत बढ़ गई है। वहीं एसएसपी सैथिल अवूदई कृष्णराज एस का कहना है कि इस बारे में जानकारी जुटाकर छापेमारी की जाएगी।

जानलेवा हो सकती है शराब

हरिद्वार: कच्ची शराब और केमिकल मिलाकर तैयार की जा रही मिलावटी शराब जानलेवा साबित हो सकती है। भगवानपुर व झबरेड़ा क्षेत्र में इसके खतरनाक परिणाम सामने आ चुके हैं। जानकार बताते हैं कि फैक्ट्री में तैयार होने वाली शराब में निश्चित फार्मूले के अनुसार ही केमिकल व अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। लेकिन अवैध रूप से कच्ची या मिलावटी शराब बनाने वाले इसे फार्मूले से अंजान हैं। थोड़ा सा भी अनुपात गड़बड़ाने से यह शराब अनगिनत लोगों की जान ले सकती है।

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/uttarakhand/haridwar-mixed-liquor-is-being-made-by-mixing-chemical-in-raw-20192705.html>